

# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10 ]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 5, 2001/पौष 15, 1922

No. 10]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 5, 2001/PAUSA 15, 1922

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2001

सा.का.नि. 10 (अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पत्तन न्यासी मंडल द्वारा बनाये गये और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में मद्रास पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवा-निवृत्ति) संशोधन, 2000 का अनुमोदन करती है।

अनुसूची

मद्रास पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (सेवा-निवृत्ति) (संशोधन) विनियम

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 28 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड निम्नलिखित संशोधन विनियम बनाता है :—

### 1. संघु शीर्ष एवं प्रारंभ

- (1) ये विनियम, मद्रास पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (सेवा-निवृत्ति) (संशोधन) विनियम, 2000 कहलायेंगे।
- (II) ये उपरोक्त संशोधन विनियम 31 जनवरी, 2001 के अपराहन् से लागू होंगे।

2. मद्रास पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (सेवा-निवृत्ति) विनियम में निम्नलिखित संशोधन बनाए जायेंगे जो 31 जनवरी, 2001 के अपराहन् से लागू होंगे।

- (1) उपरोक्त विनियमों के विनियम 3 में '60 वर्ष' शब्द के बदले में '58 वर्ष' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (II) उपरोक्त विनियमों के विनियम 4 में '60 वर्ष' शब्द के बदले में '58 वर्ष' शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (III) उपरोक्त विनियम के अनुच्छेद 2(1) के विद्यमान प्रावधानों से जुड़े अनुलग्नक मापदण्ड में निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

2(1) "दुर्लभ और विशेष परिस्थितियों में ही सेवा की बढोत्तरी/पुनः रोजगार न्याय सगत हो सकेगा। ऐसे मामलों में भी आयु सीमा वैज्ञानिक/तकनीकी पदों के साथ-साथ गैर वैज्ञानिक/गैर तकनीकी पदों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित आयु सीमा के अनुसार होगी"।

[मिसिल सं. पी आर-12016/49/2000-पीई-1]

के.वी. राव, संयुक्त सचिव

**पाद टिप्पणी :**

मद्रास पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (सेवा-निवृत्ति) विनियम केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है और भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित की गई है। जिसे अधिसूचना सं. सा. का. नि. 649 दिनांक 20 मई, 1978 और बाद के संशोधन अधिसूचना क्रमशः सं. सा. का. नि. 579, 217(अ) और 280 (अ) दिनांक 2 मई, 1980, 15 अप्रैल, 1991 और 29 मई, 1998 में देखें।

**MINISTRY OF SHIPPING****(Ports Wing)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th January, 2001

**G.S.R. 10(E).**—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124, read with Sub-section (1) of Section 132 of the Major Ports Trust Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Madras Port Trust Employees' (Retirement) Amendment Regulations, 2000 made by the Board of Trustees for the Port of Chennai Port Trust and set out in the Schedule to be annexed to this notification

**SCHEDULE****Madras Port Trust Employees' (Retirement) (Amendment) Regulations, 2000**

In exercise of the powers conferred under Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963, the Chennai Port Trust Board hereby makes the following amendment Regulations.

**(1) Short title and commencement**

(i) These Regulations shall be called the Madras Port Trust Employees' (Retirement) (Amendment) Regulations, 2000.

(ii) The said amendment Regulations shall come into force effective from 31st January, 2001 A/N

**(2) In the Madras Port Trust Employees' (Retirement) Regulations, the following amendments shall be made which will be effective from 31st January, 2001 A/N:—**

(i) In Regulation 3 of the aforesaid Regulations the words '60 years' shall be substituted by the words '58 years'.

(ii) In Regulation 4 of the aforesaid Regulations the words '60 years' shall be substituted by the words '58 years'.

(iii) The existing provision in para 2 (1) in the "criteria" attached as Annexure to the aforesaid Regulation shall be substituted as under:—

2(1) "Extension of Service/Re-employment can be justified only in very rare and exceptional circumstances. Even in such cases, the age limit shall be as prescribed by Government in respect of Non-Scientific/Non-Technical as well as Scientific/Technical posts.

[F No PR-12016/49/2000-PE-I]

K. V. RAO, Jt. Secy

**Foot-Note**

Madras Port Trust Employees' (Retirement) Regulations approved by the Central Government and published in the Gazette of India vide Notification No. G S R. 649, dated 20th May, 1978 and subsequently amended vide Notification No. G S R. 579, 217(E) and 280(E), dated the 2nd May, 1980, 15th April, 1991 and 29th May, 1998 respectively